



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 17.09.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

थाना तुर्कपट्टी

दिनांक- 13.09.2019 को वादी मुहम्मद अंसारी पुत्र रजादीन अंसारी सा0- गांगीटीकर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर द्वारा तहरीरी सूचना दिया गया कि भतीजा मेरा 1. शाहिद पुत्र हाफिज उम्र करीब 13 वर्ष व 2. अर्जुन सिंह पुत्र कमलेश सिंह उम्र 13 वर्ष दोनों लड़के सुबह लगभग 8.00 बजे नथनी सिंह जूनियर हाईस्कूल फाजिलनगर पढ़ने के लिए घर से गये थे किन्तु वापस घर नहीं आये तो स्कूल जा कर पता किया तो स्कूल भी नहीं गये थे। इस सम्बन्ध में थाना तुर्कपट्टी पर मु0अ0सं0- 259/19 धारा- 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर खोजबीन शुरू की गयी। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा व परिजनों के सहयोग से दोनों लड़को को गोरखपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया। विदित हो कि एक लड़के ने अपनी साईकिल बेंचकर व दूसरे ने अपने पिता से किताब खरीदने के बहाने 1000 रू0 लेकर अपने परिजनों को चकमा देकर स्कूल जाने के बहाने घर से घूमने के लिए स्वयं चले गये थे।

बरामद अपहृत का नाम पता-

1. शाहिद पुत्र हाफिज उम्र 13 वर्ष सा0 गांगीटीकर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
2. अर्जुन सिंह पुत्र कमलेश सिंह उम्र 13 वर्ष सा0 गांगीटीकर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

बरामद करने वाली पुलिस टीम -

1. एसओ श्री राजेश कुमार मौर्य थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर।
2. कां0 अमरेश प्रताप सिंह थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर।
3. का0 कृष्ण मोहन कुशवाहा थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर।
4. का0 अनिल यादव थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर।

➤ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 09 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-, सीज-02 , वाहन-37 से शमन शुल्क- रू0-17000

**मीडिया सेल
कुशीनगर।**